

प्रेस- नोट थाना बेलघाट जनपद गोरखपुर दिनांक 28.05.2022

थानाक्षेत्र बेलघाट में हुई हत्या के आरोप में अभियुक्तगण गिरफ्तार

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद गोरखपुर के कुशल निर्देशन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण दक्षिणी के मार्गदर्शन में व क्षेत्राधिकारी गोला के पर्यवेक्षण में थानाध्यक्ष मय टीम के साथ देखभाल क्षेत्र, रोकथाम जुर्म जरायम व तलाश वांछित के दृष्टिगत निरंतर प्रयासरत रहते हुए दिनांक 27.05.2022 को घटित घटना में थानाक्षेत्र बेलघाट में ही हत्या के आरोप में दिनांक 28.05.2022 को समय करीब 10.47 बजे मु0अ0सं0 113/2022 धारा 147/302/34 भादवि से सम्बन्धित अभियुक्ता 1. बसन्ता पत्नी सुरेन्द्र उम्र करीब 40 वर्ष 2. शम्भू पुत्र राजकुमार उम्र करीब 24 वर्ष निवासीगण ग्राम जितवारपुर थाना बेलघाट जनपद गोरखपुर 3. 02 नफर बालअपचारी को गिरफ्तार कर नियमानुसार अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 27.05.2022 को मृतक भोला पुत्र मुराली का अपने ही पड़ोसी के साथ किसी बात (छेड़खानी करने की बात) को लेकर विवाद हुआ था। (छेड़खानी) इस बात को लेकर अभियुक्त गण बसन्ता पत्नी सुरेन्द्र व शम्भू पुत्र राजकुमार व दो बाल अपचारी रात्रि के समय भोला के घर पर आये और दोनों पक्षों में कहासुनी होने लगी इसी बीच विवाद बढ़ने पर मारपीट शुरू हो गई जिसमें मृतक भोला को गंभीर चोट लगने के कारण मौके पर ही उसकी मृत्यु हो गयी थी। अभियुक्तगण द्वारा मृतक भोला को अचेत अवस्था में देखा तो अभियुक्तगण उपरोक्त वहाँ से फरार हो गया। इसी बीच जब स्थानीय लोगो द्वारा पुलिस को सूचना दी गई तो बेलघाट पुलिस द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए मुकदमा पंजीकृत कर जाँच के उपरान्त मुखबिर की सूचना पर घटना में सम्मिलित दो अभियुक्तगण 1. बसन्ता पत्नी सुरेन्द्र उम्र करीब 40 वर्ष 2. शम्भू पुत्र राजकुमार उम्र करीब 24 वर्ष निवासीगण ग्राम जितवारपुर थाना बेलघाट जनपद गोरखपुर को गिरफ्तार किया एवं 02 नफर बालअपचारी गण को पुलिस अभिरक्षा में लेकर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तारी का स्थान व समय -

जितवारपुर खलिहान बफासला 08 किमी0 जानिब दक्षिण पूरब थाना बेलघाट जनपद गोरखपुर, दिनांक 28.05.2022 समय 10.47 बजे।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त -

1. बसन्ता पत्नी सुरेन्द्र उम्र करीब 40 वर्ष निवासी ग्राम जितवारपुर थाना बेलघाट जनपद गोरखपुर
2. शम्भू पुत्र राजकुमार उम्र करीब 24 वर्ष निवासी ग्राम जितवारपुर थाना बेलघाट जनपद गोरखपुर
3. 02 नफर बालअपचारी

पंजीकृत अभियोग -

मु0अ0सं0 113/2022 धारा 147/302/34 भादवि।

बरामदगी- आलाकत्ल (02 अदद बांस का डण्डा)

गिरफ्तारी में शामिल पुलिस टीम का विवरण-

1. SO श्री गौरव राय कन्नौजिया थानाध्यक्ष बेलघाट जनपद गोरखपुर
2. उ0नि0 अजीत कुमार यादव बेलघाट जनपद गोरखपुर
3. का0 धीरेन्द्र यादव बेलघाट जनपद गोरखपुर
4. का0 दिलीप कुमार बेलघाट जनपद गोरखपुर
5. का0 संतोष यादव बेलघाट जनपद गोरखपुर
6. का0 अनुपम यादव बेलघाट जनपद गोरखपुर